

VARUN BEVERAGES LIMICED



Corporate Off: Plot No.31, Institutional Area, Sec.-44, Gurgaon, Haryana-122002 (India)
Ph.: +91-124-4643100-500 • Fax: +91-124-4643303/04 • E-mail: info@rjcorp.in • Visit us at: www.varunbeverages.com
CIN No.: L74899DL1995PLC069839

March 12, 2025

To,

National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Block G, C/1, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051

Email: cmlist@nse.co.in

Symbol: VBL

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai – 400 001
Email: corp.relations@bseindia.com

Security Code: 540180

Sub: Newspaper Advertisement regarding 30th Annual General Meeting ("AGM") of the Company through Video Conferencing/Other Audio Visual Means

Dear Sir / Madam,

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Regulation 44 and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and previous General Circulars including but not limited to circular no. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), copies of the newspaper advertisement published in "Business Standard" in English (All Editions) and Hindi language on March 12, 2025 regarding Notice of 30th AGM of the Company scheduled on Thursday, April 3, 2025 through Video Conferencing/Other Audio Visual Means facility are enclosed herewith. The same is also available on website of the Company at www.varunbeverages.com.

You are requested to take the above on record.

Yours faithfully, For Varun Beverages Limited

Ravi Batra Chief Risk Officer & Group Company Secretary

Encl.: As above

Regd. Office: F-2/7, Okhla Industrial Area Phase-I, New Delhi - 110 020 Tel.: 011-41706720-25 Fax. 26813665 र बैंक ऑफ बड़ीटा

Martindal Bridge Branch (E- Vijaya), Ajmer Region Bank of Baroda | Mob. 9116165863, E-Mail V.JAJME@BANKOFBARODA.CO.I

DEMAND NOTICE

NOTICE TO BORROWER/CO-BORROWER/GUARANTOR UNDER SUB-SECTION(2) OF SECTION 13 OF THE SARFAESI ACT, 2002 Notice for the period of 60 days was given under section 13(2) of above act to the following borrowers to deposit loan amount and futur interest due to NPA of their account by the authorized officer of the bank. According to the notice if the loan amount not deposited within 6 days, the said amount was to be recovered under provision of section 13(4) of the said act. The Branch has not received the acknowledgement of said notice/returned undelivered which was sent to you under said act. Therefore this is to inform through notice that deposit the loan amount with future interest and expenses within 60 days from this notice, hence further steps will be taken by the bank under provisions of section 13 and 14 of the said Act.

Outstanding Amount

Date of 13(2) Name and Address of the Demand Notice Borrower/Guarantor 28.02.2025 M/s ROSHANI MINERALS Plot No.3 Part of Khasra No.4417/3536, Village-Ran Sagar Tehsil-Masuda Ajmer-305202.

Address: H No.3, Gali No.7, Ekta Nagar, Somalpur Ajmer-305001 Business Limit Loan A/c No.:- 76960500000015

Date: 12.03.2025 Place: Ajmei

<u>Through it's Proprietor</u> Mr. IBRAHIM KHAN 28.02.2025 and further interest from 01.03.2025 and other charges + costs NPA Date: 26.02.2025 6960600000163 and 76960600001365

All part and parcels of the Plot No.3, Kh.No. 4417/3536, Total Rs. 41,93,877.01 Gram-Ranisagar, Masuda, Beawar, Ajmer, total area 1537.30 sq yards Registered in the name of Mr. Ibrahim as on 28.02.2025 nclusive of interest upto Khan S/o Shri Bhanwar Khan. Wide Book No. 1 Volum No. 129 Page 187 Sl. No. 2225 Addl Book No.1A Vol 45 Page no. 11398 to 11405 Sl No. 2225 Dated 12/09/2017 at the office of Sub Registrar Masuda Aimer. Bounded a :- East: Others Property, West: 60 Feet Wide Road, North: 60 feet Wide Road and Plot, No. 12, South: Plot No. 02

Chief Manager & Authorized Officer, Bank of Baroda

Description of the Immovable Property

PUBLIC NOTICE My father Late Mohammad Fahim booked flat No. 003 in ower N3 in Eco Village-1 Greate NOIDA in our name, where I Arit

ahim am the co-applicant. Now after his demise I have requested M/S Supertech Ltd. to transfer the property in my name. If anybody has any objection, he/she may contact M/S Supertech Ltd. at their head office E square Plot No. C02 Sector 96 NOIDA (UP) within 15 days of this notice.

Arif Fahin P.S. Apartments Mayur Vihar, Delhi-91 arif.fahim0@gmail.com

I, PRAFULCHANDRA UPADHYAY (PAN: AAGPU0773L) alias P. KARUNASHANKAR UPADHYAY holding 1000 shares of SIKA terplant Systems Limited Registered Office Interplant Systems Limited Registered Office; No.03, Gangadharchetty Road, Dr. Sharma Building, Bangalore - 560042, in Folio No. P000177 bearing Share Certificate Number 1008 will distinctive numbers from 406601 - 407600 consisting of 1000 shares of Rs 10/- each. I do hereby give notice that the said Share Certificate is lost and I have applied to the Company for issue of

Is to stand that a papied of the Company for Issue of duplicate Share Certificate. The public is hereby warned against purchasing of dealing in anyway with the said Share Certificate. The company may issue duplicate Share Certificate. if no objection is received by the company, within 15 days of the publication of this advertisement, after h no claim will be entertained by the company

dabad PRAFULCHANDRA UPADHYAY Date: 12.03.2025 Folio No : P000177

PUBLIC NOTICE

We, Ankita Sharma W/O Pranab Mishra and Pranab Mishra S/O Milan Kumar Mishra, residing at 233, Azad Hind Apartment, Plot No.15, Sector 9, Dwarka, New Delhi - 110077, jointly booked a property ir Smartworld Orchards A 11 C Gurugram, Haryana and took a loar for it. After closing the loan, we received the TPA Copy (Bank and customer copy) and Permission to Mortgage (PTM) from the bank but splaced these documents Anyone with information regarding the whereabouts of these documents is requested to contact us at the above

Date: February 19, 2025 Ankita Sharma & Pranab Mishra Contact Address: 233, Azad Hind Apartment, Plot No.15, Sector 9, Dwarka, New Delhi – 110077 GD REQUEST NO: 044 DATED 05/03/2025 22.24 HRS Assist Sub Inspector P.S. Badshahpur, Gurugram

PUBLIC NOTICE

n compliance with circular no. DNBR.(PD) 029/CGM(CDS)-2015 dated July 09, 2015 and directions thereof, notice is hereby given that, the composition of Board of Directors of the ompany, M/s Sharma Gandhi Hire Purchase Limited, a limited company registered unde Companies Act, 1956, having Corporate Identification Number as U65921DL1994 Identification Number as U65921DL1994
PLC401816, having its registered office at 3721/1, First Floor, Netaji Subhash Marg, Daryaganj, Delhi-110002, an existing Non-Parking Floors Company, thereis referred to a Banking Finance Company (herein referred to as "the Company"), was changed to new composition of Board comprising, i) Asha Nand Sharma (DIN: 06878273), ii) Abhishek Bansal (DIN:01972424) from its earlier composition of Board comprising: i) Ashok Kumar Bansal (DIN: 03393876), ii) Asha Nand Sharma (DIN: U3393876) , ii) Asha Nand Sharma (DIN: 06878273), by virtue of which the Board of Directors as well as management and control of the Company stands transferred in favour of the new composition of Board of Directors above named. The main reason of the change in management was cessation of Mr. Ashok Kumar Bansal due to his demise and there is no transfer/sale of shares. Any person(s) including any creditor(s) having

any objection to the change in directorship, control and management of the Company may write to the Company at its Registered Office write to the Company at its registered unitered above and also to the concerned Regional Office of the Reserve Bank of India, Department of Non-Banking Supervision, 6, Sansad Marg, New Delhi-110001 within 30 days from the date of publication of this notice stating therein the nature of interest and ground of objection. ssued by the New Board of Directors of the

For Sharma Gandhi Hire Purchase Limited hishek Bansal DIN:01972424

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL NEW DELHI CP (CAA) No.14/ND/2025 CONNECTED WITH

C.A.(CAA)/112(ND)2024 And In the matter of Sections 230 to 232 and other relevant provisions of the Companies Act, 2013;

And In the matter of Schem In the matter of Scheme of Arrangement between KRH Manufacturing and Management Private Limited and Accelauto Services Private Limited and their respective

KRH MANUFACTURING AND MANAGEMENT PRIVATE LIMITED,

A company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office at 214, Durga Chambers, DB Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi-110005.Petitioner-1/Demerged Company

ACCELAUTO SERVICES PRIVATE LIMITED, A company incorporated under the provisions of the Companies Act, 2013 and having its registered office at 2nd Floor, 22-A, Asaf Ali Road, Darya Ganj, New Delhi-110002.

.Petitioner-2/Resulting Compan NOTICE OF PETITION

NOTICE OF PETITION

A petition under sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013, for sanction of Scheme of Arrangement was jointly presented by KRH Manufacturing and Management Private Limited and Accelauto Services Private Limited on the 07th day of February, 2025, and the said petition is fixed for hearing before the National Company Law Tribunal on the 01st day of April, 2025. Law Tribunal on the Ofst day of April, 2025. Any person desirous of supporting or opposing the said petition should send to the petitioner's advocate, notice of his intention, signed by him or his advocate, with his name and address, so as to reach the petitioner's advocate not later than two days before the date fixed for the hearing of the petition. Where he seeks to oppose the petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Adv Rajeev Kumar Dated: 12.03.2025 (Advocate for petitioners)
GF, Mercantile House, 15, Kasturba Gandhi
Marg,New Delhi–110001

Bank of India Bank of india, Dantli Branch NOTICE FOR PUBLIC AUCTION OF PLEDGED GOLD JEWELLERY/ORNAMENTS/COINS

It is hereby brought to the notice of the following gold loan borrowers, their legal heirs, persons engaged in business of gold jewellery/omaments/coins and general public that inspite of repeated reminders/ notices by the Bank, the following borrowers are not repaying their dues to the Bank. Notice is hereby published that if they fail to depost all their dues in their respective gold loan accounts (including up-to-date interest and all costs charges/ expenses) by 26.03.2025, then from 03 pm on 27.03.2025, their pledged gold jewellery/omaments/ coins will be put up for public auction in the branch premises. For this, Bank shall not be held responsible for any inconvenience or damage caused to the concerned borrowers and no allegations or representations will be entertained from any borrowers in this regard. Persons interested to take part in the bidding should deposit Rs.500′. (Rupees Five Hundred only) with the Branch Manager before the scheduled time/ date towards earnest money. Persons having taken print final bidding must be able to deposit full amount to the Bank within 48 hours, falling which their earnest money, deposited with the Bank will be forfeited. Bank reserves the right to cancel the auction without assigning any reasons in case, the bidding price so amoved at, is observed to be low or inadequate. assigning any reasons in case, the bidding price so amoved at, is observed to be low or inadequate Further, if need be, Bank reserves the right to change the date, time or place of the above schedule

Name & Address of Borrower	Outstanding Dues	Account No. & Gross / Net Weight of Gold	Reserve Price	Date, Time & Place of Auction
Mr. Vishal Kumar	Rs. 49,264/-	667277610000278	Rs.	27.03.2025 from
Harijan	+ interest	(1) 2 Tika : 22 Carat 7.9 / 5.5 Gram; Rs. 37,147/-	59,166/-	03 pm to 05 pm, Bank of India,
		(2) 2 Pendal: 22 Carat		Village-Dantli,
		5 / 4 Gram; Rs. 27,016/-		Distt.: Jaipur
Date: 12.03.202	:5	Aut	horised Offi	cer, Bank of India

action or cancel the same without assigning any reasons thereon

1) Date

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank Of Barnda NOTICE The under mentioned persons are hereby informed that they have failed to pay off the liability in the loar accounts. Notices sent to them by Registered Post have been returned undelivered to the Bank. They are therefore requested to pay off the liability and other charges and redeem the pledged securities or or before 18-03-2025 (date) failing which the said securities will be sold by the Bank in public auction at

the cost of the borrower at the Bank's premises at 11.00 A.M. on 27-03-2025 or on any other convenien ate thereafter without further notice at the absolute Date of Loan Loan Number Name and address of the borrower 08-06-2021 | 65020600001306 | Nishant Mathur, 30/64/03 Swarn Path Mansarovar, Jaipur 302020

BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK Branch- Suiangarh, Distt. Churu (Raj.) Mob. 8003490 PPENDIX-IV-A [See proviso to Rule 8 (6) read with rule 9(1)] Auction sale notice for sale of immovable property

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction or Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to rule 8(6) of th Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s), Mortgagor(s) and Guarantor(s) that the below described the immovable property mortgaged/Charged to the Secured Creditor, possession of which has beet taken by the Authorised officer of Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank, Secured Creditor will be sold on "As is where is," As is what is," and "whatever there is basis for recovery of dues in below mentioned account/s. The details of Borrower's, Mortgagor/Gurantor's, Secured Assets Dues, Reserve Price, E-auction date & Time, EMD and Bid Increase Amount are mentioned below:—Name & additional Control of the Control of the

& address of M/s Prakash Solar Powers Prop. Sh. Prakash Chand Kumawat S/o Sh prrowers & Mohan La! (Borrower) 1, GF 1, Mahadev Filling Station, Ladnun Road Sujangarh, Distt. Churu, (Raj.) 2, 74, Mahadev Ji ka Bhatta, Naya Bass Ward No. 22, Sujangarh, Distt. Churu (Raj.) Mr. Mohan Lal Prajapat S/o Mr. Mahadev Prasad (Guarantor); Mahadev Thaikadar Road, Naya Bass, Ward No. 21, Sujangarh Distt. Churu (Raj.). Mr. Manoj Kumar S/o Mr. Mohan Lal Prajapat (Guarantor); 74, Mahadev Ka Bhatta, Ward No.21, Sujangarh Distt. Churu (Raj.)

Total Dues:- Demand Notice Date: - 25/06/2024; Rs. 67,08,281.45/- interest up to 24/06/2024 further applicable interest, cost, charges & other expenses etc.

Present outstanding: Rs. 67,08,281.45/- interest up to 24/06/2024 + further applicable

Status of Possession: - Physical Possession

Property Inspection date & Time: - 26.03.2025; 12.00 Noon to 04.00 P.M EMD. Deposit date & Time:- 02.04.2025 Time 11:00 A.M Reserve Price/ EMD/ Bid Increase Amount of E-auction: Give short description of the immovable property

with known encumbrances, if any Commercial Property Situated at Khasra No. 1494/1263, Village Jaswantgarh, Teh. Ladnun, Distt. Nagaur (Raj.) Measuring 2000 Sq. Mtr. in the name of Sh. Prakash Chand S/o Sh. Mohan Lal., Bounded by:-On The East by:-Land of Khasra No. 951/5, On The Westby:-Land of Khasra No. 961/5, On The North by:- Sujla Chauraha to Sujangarh Road, On The South by:-Land of Khasra No. 1176/5, Encumbrances:- Not Known Rs.87.10.623/-Rs.8.71.063/-BID Increase Amt

Encumbrances: - Not known For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in https://www.brkgb.com, and https://www.bankeauctions.com, Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank, Branch- Sujangarh Distt.Churu (Raj.) Mob. 8003490275, 952 Secured Creditor's website.

02/04/2025

05.00 P.M.

(With unlimite

extensions of

Authorised Office (Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank Date: 11.03.2025 Place: Churu

SUPRA TRENDS LIMITED

(CIN: L56100TG1987PLC007120)

Regd. Office: Flat No. 112, 'A' Block, Paragon Venkatadri Apts, 3-4-812,

Barkatpura, Hyderabad, Telangana, 500027.

March 11 2025

Contact No.: +91 9666966605 | Email ID: supratrends1987@gmail.com | Website: www.supratrendsltd.com

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") on the Open Offer to the Public Shareholders of Supra Trends Limited ("Supra"/"Target Company") under Regulation 26(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent Amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations, 2011")

1)	Date	March 11, 2025				
2)	Name of the Target Company ("TC")	Supr	Supra Trends Limited			
3)	Details of the Open Offer pertaining to Target Company	The Open Offer is made by the Acquirers and the PACs in terms of Regulations 3(1) and 4 of SEBI (SAST) Regulations, 2011 for acquisition of up to 37,83,000 equity shares having face value of ₹10 each representing 27.95% of the Emerging Voting Share Capital of the Target Company at a price of ₹10 per Equity Share from the public shareholders of the Target Company in terms of SEBI (SAST) Regulations, 2011.				
4)	Name of the Acquirers and the PACs	(i)	Mr. Koppuravuri Naga Venkata Shyam Anirudh	:	Acquirer 1	
-,		(ii)	Mrs. Ajjarapu Bhavani	:	Acquirer 2	
			Mr. Vishwa Prasad Nethi	:	Acquirer 3	
		(iii) (iv)	Mr. Chelikam Raghuram Reddy	:	Acquirer 4	
		(v)	Ms. Jhansi Sanivarapu	:	PAC 1	
		(vi)	Ms. Vanaja Veeramreddy	:	PAC 2	
		(vii)	Ms. Jwala Chaitanya	:	PAC 3	
			Ms. Padma Rajender Thodupunur	:	PAC 4	
		(viii) (ix)	Mrs. Yandra Kavitha	:	PAC 5	
			Mrs. Sharada Kovuri	:	PAC 6	
		(x)	Mr. Nethala Sainag	:	PAC 7	
		(xii)	Mrs. Kovuri Manjula	:	PAC 8	
		(xiii)	Mrs. Kovuri Kalpana	:	PAC 9	
5)	Name of the Manager to the Offer	· /	Corporate Advisors Private Limited			
,		(SEB	II Reg. No.: INM000012128)			
6)	Members of the Committee of	(i)	Koduganti Raghavendra Kumar	:	Chairman	
•	Independent Directors	` '	(DIN: 02376957)			
		(ii)	Sridhar Seshadri Gundavarapu	:	Member	
		` ′	(DIN: 01724330)			
		(iii)	Savithri Penumarthi	:	Member	
			(DIN: 10720017)			
7)	IDC Member's relationship with the TC (Director, equity shares owned, any other contract/relationship), if any	Com They	members are Independent Directors on the Boa pany. They do not have any equity holding in the have not entered into any other contract or have the Target Company.	Tar	get Compan	
8)	Trading in the equity shares/other securities of the TC by IDC Members		ading in the Equity Shares of the Target Company hof the IDC Members	nas	been done b	
9)	IDC Member's relationship with the Acquirers (Director, equity shares owned, any other contract/relationship), if any	of the	ner the IDC Members are Directors in companies a Acquirers/PACs are acting as Director(s) nor the conship with the Acquirers and PACs in their person.	уа	re having ar	
10)	Trading in the Equity Shares/other securities of the Acquirers by IDC Members	Nil			•	
11)	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable	IDC i	s of the view that Open Offer is fair and reasonable			
12)	Summary of reasons for recommendation		has taken into consideration the following mmendation:	for	making th	
			has reviewed (a) The Public Announcement 14, 2024 in connection with the Offer issued irers; (b) The Detailed Public Statement ("DPS") (c) DLoF dated August 29, 2024; (d)Corrigencist 14, 2024, DPS dated August 22, 2024 and DLoF ("Corrigendum"), published on January 16, 2025; after ("LoF") dated March 05, 2025.	on date lum dat	behalf of the ed August 2: to PA date ted August 2:	
		Base is of share highe of Of Regu Share	d on the review of PA, DPS, DLoF, Corrigendum the opinion that the Offer Price of ₹10 per equity cholders offered by the Acquirers and the PACs est price amongst the selective criteria mentioned uffer Price) is in line with the regulation prescribed by allations and prima facie appears to be justified. Hoeholders should independently evaluate the Offer a street in the matter.	sh (n (nde y S we	nare for puble nore than the er Justification EBI under the ver, the Puble	

15) Any other matter(s) to be highlighted To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

decision in the matter.

13) Disclosure of Voting Pattern of IDC

14)

Place: Hyderabad

Date: March 11, 2025

Details of Independent Advisors, if any

For and on behalf of The Committee of Independent Directors of

The recommendations were unanimously approved by the members of

the IDC present at the meeting held on March 11, 2025.

Supra Trends Limited

Koduganti Raghavendra Kumar Chairman-IDC (DIN: 02376957)

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, रॉची

ई-निविदा आमंत्रण सूचना PR No. 343433 REO (24-25)D दिनांक-पत्रांक:-ई-- निविदा संख्या:-24/2024-25/RWD /EE/RANCHI प्राक्कलित राशि (रूपये में) क्र0 आईडेन्टी कार्य का नाम कार्य टेण्डर फिकेशन प्रखण्ड तमाप्ति की कॉल अक्षर तिथि / नं0 पैकेज संख्या अवधि बुढ़मू मुरूपीरी पथ से मॉडल स्कूल एक करोड पाँच RWD ग्रहानटौली तक पथ निर्माण कार्य। 1,05,60,400.00 प्रथम RANCHI/ (लं0— 1.005 कि0मी0)। उमेडण्डा गाँव में कन्डेर मोड़ से हबरूवा 77/2024-25 चार सौ रूपये मात्र 2,61,04,000.00 RWD दो करोड एकसठ 12 माह RANCHI/ पहाड भाया आरीद तक पथ निर्माण प्रथम लाख चार हजार रूपये मात्र। 78/2024-25 कार्य (लं०— २.५७५ कि०मी०)। चैनगड़ा हाई स्कूल से पलानी भाया गम्हरिया तक पथ निर्माण कार्य (लंठ-3,56,39,800.00 तीन करोड़ छप्पन RWD/ 15 माह लाख उनचालीस RANCHI/ प्रथम 79/2024-25 3.890 कि0मी0)। हजार आठ सौ रूपये मात्र। 2 91 06 200 00 RWD राँची डाल्टेनगंज मुख्य पथ से देवीमंडप दो करोड़ एक्यानबे RANCHI/ कमड़े के विभिन्न गलियों भाया पत्रकार लाख छः हजार दो 80/2024-25 कॉलोनी रूपा गप्ता. ममता देवी के घर सौ रूपये मात्र। प्रथम एवं सत्या यादव के घर के पास आर0सी0सी0 कर्ल्मट तक पथ निर्माण कार्य (लं0-2.500 कि0मी0) 3,40,48,500.00 तीन करोड़ चालीस RWD/ जोजो नगर चौक से सर्वोदय नगर रोड 15 माह RANCHI/ नं0–1 एवं 2 नावाटोली किड्स हार्ट लाख अड़तालीस 81/2024-25 रकल सिमलिया पंचायत के विभिन्न हजार पाँच सौ गलियों में पथ निर्माण कार्य (ल0—3.100 प्रथम रूपये मात्र। कि0मी0) दयाल नगर बजरंगबली मंदिर से सरयू 2,36,17,900.00 दो करोड़ छत्तीस RWD 12 माह नगर एवं गणपति विहार कॉलोनी के RANCHI/ लाख सत्तरह हजार विभिन्न गलियों में पथ निर्माण कार्य 82/2024-25 प्रथम (ल0-1.805 कि0मी0) RWD/ एन0एच0-33 टाटा रोड से सरईटोली 1.96.57.000.00 एक करोड छियानबे 9 माह भाया पिरिटोला तक पथ निर्माण कार्य RANCHI/ लाख सन्तावन (ल0—1.800 कि0मी0) मुरचु से कोकरो तक पथ निर्माण कार्य 3,42,00,300.00 हजार रूपये मात्र। 83/2024-25 प्रथम RWD/ रातू तीन करोड 15 माह बियालीस लाख तीन RANCHI/ (ल0-2.450 कि0मी0) 84/2024-25 प्रथम

वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि:-12.03.2025 –निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समयः–19.03.2025 अपराहन 5.00 बजे तक।

निविदा खोलने की तिथि एवं समय:—21.03.2025 अपराह्न 3.30 बजे।

निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता:— कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, राँची। ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0- 0651-2360137

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता PR 348397 REO(24-25)#D ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, राँची

VARUN BEVERAGES LIMITED

Registered Office: F-2/7, Okhla Industrial Area, Phase I,
New Delhi - 110 020; Tel: +91 11 41706720

Corporate Office: Plot No. 31, Institutional Area, Sector - 44,
Gurugram - 122 002; (Haryana) Tel: +91 124 4643100

E-mail: complianceofficer@ricorn in: Website: www.varunbe

E-mail: complianceofficer@rjcorp.in; Website: www.varunbeverages.com Corporate Identity Number: L74899DL1995PLC069839

NOTICE TO THE MEMBERS FOR 30[™] ANNUAL GENERAL MEETING This is in continuation to our earlier communication dated March 6, 2025, whereby Members of

Varun Beverages Limited ("Company") were informed that in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ["SEBI (LODR) Regulations"] read with previous General Circulars including no. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), the Board of Directors decided to convene 30th Annual General Meeting ("AGM") of the Company on Thursday, April 3, 2025 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without the physical presence of Members at a common venue, to transact the business as set out in Notice of the

Notice of the 30th AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year ended December 31, 2024 has been sent on Tuesday, March 11, 2025 through e-mail to those Members whose e-mail address were registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") or with their respective Depository Participants ("DP"), in accordance with the MCA Circulars and previous SEBI Circulars including no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024. The same are available on Company's website (www.varunbeverages.com), Stock Exchanges website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") (www.evoting.nsdl.com).

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, Secretarial Standard - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and MCA Circulars, Members are provided with the facility to cast their vote electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) services provided by NSDL on all resolutions set forth in Notice of the 30th AGM.

Remote e-voting shall commence on Monday, March 31, 2025 (9:00 A.M. IST) and end on Wednesday, April 2, 2025 (5:00 P.M. IST). During this period, Members may cast their vote electronically. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the

AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through e-voting facility available during the AGM. Further, only those Members who have not casted their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

Once the Member cast vote on a resolution, Member shall not be allowed to change it subsequently. Detailed instructions for remote e-voting, joining the AGM, registration of e-mail address, obtaining login details and e-voting during the AGM are provided in Notice of the

Mr. Kapil Dev Taneja, failing him Mr. Neeraj Arora, Partners of M/s. Sanjay Grover & Associates, Company Secretaries, New Delhi, have been appointed as Scrutinizer by the Company to scrutinize the entire e-voting process in a fair and transparent manner.

The voting right of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Thursday, March 27, 2025 ("Cut-off date"). A person, whose name appears in the Register of Members or list of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date shall only be entitled to join the AGM, avail the remote e-voting and e-voting facility during the AGM. A person who is not a Member or ceases to be a Member as on the Cut-off date should treat this Notice for information purpose only.

Any person, who acquire share(s) and become Member of the Company after the date of dispatch of Notice of the 30th AGM and hold shares as on the Cut-off date, may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in Notice of the 30th AGM or sending a request at evoting@nsdl.com. However, if a person is already registered with NSDL or Central Depository Services (India) Limited for remote e-voting, then existing User ID and Password can be used to cast their vote as per instructions provided in Notice of the 30th AGM.

If you have not registered your e-mail address with the Company/RTA/DP, you may please follow the below instructions:

Physical Please send a request to KFin Technologies Limited, RTA at einward.ris @kfintech.com or to the Company at complianceofficer@rjcorp.in providing your Holding name, folio number, scanned copy of the share certificate (front and back) and selfattested scanned copy of PAN and Aadhaar Card for registering e-mail address. Demat

Please contact your DP and register your e-mail address in your demat account, as Holding per the process advised by your DP.

SEBI has mandated furnishing of PAN, KYC details (i.e. postal address with PIN code, e-mail address, mobile number, bank account details) and nomination details by holders of securities in physical form. Any service request or complaint received from the Member will not be processed until the aforesaid details/documents are provided to RTA. Relevant details and prescribed forms in this regard are available on website of the Company at www.varunbeverages.com.

Record Date for determining entitlement of Members to the final dividend for the Financial Year ended December 31, 2024 shall be fixed by the Board of Directors of the Company. The final dividend will be paid to the Members within the prescribed statutory period and as per the mandate registered with the Company or with their respective DPs. If our Company is unable to pay the dividend to any Member directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means, due to non-registration of the Electronic Bank Mandate, the Company shall dispatch the bankers' cheque/demand draft to such Member(s) at their registered address within the prescribed statutory period.

The result of voting shall be declared not later than 2 working days or 3 days, whichever is earlier, from the conclusion of AGM and results so declared along with the consolidated Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website (www.varunbeverages.com), Stock Exchanges website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and NSDL's website (www.evoting.nsdl.com).

In case of any query regarding e-voting, please refer Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the Download section at www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400 013 at 022-4886 7000 / 022-2499 7000 or send a request at evoting@nsdl.com or write an e-mail to Compliance Officer of the Company at complianceofficer@rjcorp.in.

> For and on behalf of Varun Beverages Limited Ravi Batra Chief Risk Officer & Group Company Secretary

Date: March 11, 2025

Place: Gurugram

सीआईएन: L23201UP2001PLC209751 पंजीकृत कार्यालय: खसरा नंबर 265,281 से 288, परसीं, जिंदल नगर, पंचशील नगर, हापुड, उत्तर प्रदेश, भारत, 201015 फोन नंबर: +91 120 6546670; वेबसाइट: www.salasartechno.com संपर्क व्यक्तिः मोहित कमार गोयल, कंपनी सचिव और अनपालन अधिकारी

संपर्क विवरण: 8076385653 फोन नं.: - +91 120 6546670 ई-मेल: compliance@salasartechno.com

पोस्टल बैलट और ई-वोटिंग सूचना की जानकारी

रतदुद्वारा यह सूचना दी जाती है कि यथासमय संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 110 और ऐसे अन्य लागू कानूनों के अनुसार, कंपनी ने 11 मार्च, 2025 को केवल उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से पोस्टल बैलट नोटिस दिनांक 11 मार्च, 2025 भेजना शुरू कर दिया है, जिनकी ईमेल आईडी उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी/प्रतिभागियों या कंपनी रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट. मेसर्स बिगशेयर सर्विसेज पाइवेट लिमिटेड के साथ पंजीकत है।

सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की मंजूरी रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलट द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावों के लिए मांगी जा रही है:

١	क्र.सं.	प्रस्ताव का विवरण	प्रकार
ı	1.	श्री जय कृष्ण अग्रवाल (डीआईएन: 01060175) की कंपनी के गैर-कार्यकारी स्वतंत्र	विशेष
١		निदेशक के रूप में नियुक्ति	
	2.	श्री राजेश अग्रवाल (डीआईएन: 08765416) की कंपनी के गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति	विशेष

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 19 सितंबर, 2024 के अपने सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 के माध्यम से अपने सभी शेयरधारकों को पोस्टल बैलट नोटिस सहित सूचना भेजने की समय सीमा 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी है। इसलिए, सूचना या पोस्टल बैलट फॉर्म की भौतिक प्रतियों का प्रेषण नहीं किया जाएगा।

सदस्यों के मतदान अधिकारों की गणना उनके द्वारा शुक्रवार, 07 मार्च, 2025 को, जो इस उद्देश्य के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि है, कारोबारी समय के समापन पर उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों पर की जाएगी।

कंपनी ने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ('बिगशेयर') की सेवाएं ली हैं। सदस्यों से अनरोध है कि वे ध्यान दें कि ई-वोटिंग बधवार. 12 मार्च 2025 (09:00 बजे) से शरू होगी और गरुवार, 10 अप्रैल, 2025 (05:00 बजे) को समाप्त होगी, जिसके बाद ई-वोटिंग मॉडयल निष्क्रिय हो जाएगा।

कंपनी के निदेशक मेंडल ('बोर्ड') ने मेसर्स दीपिका मधवाल एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज की प्रोपराइटर सीएस दीपिका गौर को निष्पक्ष और पारदशौँ तरीके से दरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से पोस्टल बैलट का संचालन करने के लिए स्कटिनाइजर ('स्कटिनाइजर') के रूप में नियक्त किया है। पोस्टल बैलट नोटिस कंपनी की वेबसाइट यानी https://salasartechno.com wp-content/uploads/2025/03/Notice-of-Postal-Ballot-11-03-2025.pdf और बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://ivote.bigshareonline.com/landing पर और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और एनएसई पर भी उपलब्ध है जहां कंपनी के शेयर सचीबद्ध हैं।

पोस्टल बैलट का परिणाम अध्यक्ष/कार्यकारी निदेशक या उनके द्वारा अधिकत किसी व्यक्ति द्वारा पोस्टल बैलट के समापन से दो (2) कार्य दिवसों के भीतर, स्टॉक एक्सचेंज पर, जहां कंपनी के शेयर सुचीबद्ध हैं और कंपनी की वेबसाइट यानी https://www.salasartechno.com पर और बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://ivote.bigshareonline.com/landing पर स्क्रृटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ प्रदर्शित किया जायेगा। जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे सीधे कंपनी/आरटीए को ई-मेल भेजकर अपना ई-मेल पता पंजीकृत

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप https://www.bigshareonline.com के डाउनलोड अनुभाग मे उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAOs) for Shareholders तथ e-voting user manual for Shareholders देख सकते हैं/या 1800 22 54 22 और 022-62638338 पर कॉल कर सकते हैं या ivote@bigshareonline.com पर अनुरोध भेज सकते हैं। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के लिए

हस्ता./ मोहित कुमार गोवल स्थानः हापड

दिनांक: 11 मार्च, 2025

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

आरबीएल बेंक लि. RBLBANK apno ka bank पंजीकृत कार्यालयः फर्स्ट लेन, शाहपुरी, कोल्हापुर-416001 राष्ट्रीय कार्यालयः नीवीं मंजिल, टेक्नीप्लेक्स-], ऑफ वीर सावरकर फ्लाईओवर, गोरेगींव (वेस्ट), मुंबई-400 062

आरबीएल बैंक लिमिटेड द्वारा वित्तीय सम्पत्तियों की बिक्री के लिए आरवाएल पर्क रातमान्छ द्वारा विसाव र निराम के निराम है. वित्तीय पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी), बैंकों, एफआई तथा पात्र एनबीएफसी से 'इच्छा की अभिव्यक्ति' आमंत्रण सूचना

ारबीएल बैंक लिमिटेड (आरबीएल बैंक) नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप वित्तीय सम्पत्तियों की बिक्री पर आरबीएल बैंक की नीति के मद्देनजर अपने निम्नलिखित तनावग्रस्त ऋण पुल की प्रस्तावित बिक्री के लिए एआरसी, बैंकों, एफआई और पात्र एनबीएफसी (बोलीदाता) से इच्छा की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है। पात्र प्रत्याशित क्रेता(ओं) से अनुरोध है कि वे आरबीएल द्वारा प्रदत्त प्रारूप में ईओआई जमा कर भाग लेने की अपनी इच्छा से अवगत कराएं और यथोचित परिश्रम आरम्भ करने से पहले आरबीएल बैंक द्वारा प्रदत्त प्रारूप में एक गैर-प्रकटन समझौता (एनडीए) संपादित करें तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तत करें।

आरबीएल बैंक की किसी सहायता के बिना तनावग्रस्त ऋणों को 'जैसा है, जहां है' के आधार पर तथा 'जैसा है जो है' के आधार पर बिक्री किया जाएगा। बिक्री किए जाने वाले प्रस्तावित तनावग्रस्त ऋणों का सारांश नीचे दिया गया है।

खाते की प्रकृति	खाते	28.02.2025 को	बिक्री की
	की सं.	बकाया कुल मूलधन	शर्त
		(रुपये करोड़ में)	
एनपीए क्रेडिट कार्ड एवं अल्पावधि		₹.	100% अग्रिम
व्यक्तिगत ऋणों का पोर्टफोलियो	88,643	597.34	नकद भुगतान
व्यक्तिगत ऋणों का पोर्टफोलियो यथोचित परिश्रम करने के लिए दस्तावेज	,		
	नों की प्रतिलिपिय	। i आरबीएल बैंक लिमिटेड	

इच्छुक बोलीदाता (ओ) खाता (ॉ) की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने और यथोचित परिश्रम करने के विपा नीचे वक्तिर्यक्त अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

ालए गाय जा	लिए नाम उल्लिखित अधिकारी से संपक्त कर सकत है।			
नाम	पदवी	सम्पर्क विवरण		
श्री	हेड डेट	मोबाइलः +91 99308 65671		
वरदाराजन	कैपिटल मार्केट्स	ईमेलः varadarajan.tirumalai@rblbank.com		
तिरुमलाई	एवं लोन सिंडिकेशन	वन इंडियाबुल्स सेंटर, टावर 2बी, छठवीं मंजिल, 841,		
		सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400013		
श्री जय	डेपुटी वाइस प्रेसिडेंट-	मोबाइलः +91 9987016308		
मुछाला	डेट कैपिटल मार्केट्स	ईमेलः jay.muchhala@rblbank.com		
	एवं लोन सिंडिकेशन	वन इंडियाबुल्स सेंटर, टावर 2बी, छठवीं मंजिल, 841,		
		सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400013		
श्री नीरज	हेड रिटेल	मोबाइल - 9820004427,		
सहगल	कलेक्शन	ईमेल- neeraj.sehgal@rblbank.com पता-		
	स्ट्रैटजी	आरबीएल बैंक लिमिटेड, टेक्नीप्लेक्स 1, भूतल, ऑफ वीर		
		सावरकर फ्लाईओवर, गोरेगांव (डब्ल्यू), मुंबई-400062		
बिक्री की प्रति	क्रेया सम्पन्न करने की स	- मय-अनुसूची नीचे उल्लेखित है, जिसे ध्यान में रखते हुए		

अनुपालन किया जा सकता है:

ı	क्र.स.	कार्यकलाप	तिथिया
ı	1	प्रत्याशित बोलीदाता द्वारा यथोचित	10 मार्च, 2025 से 24 मार्च, 2025 तक
ı		परिश्रम हेतु डेटा रूम परिदर्शन करने	(आरबीएल बैंक के कार्यदिवस को पूर्वाहन
ı		के साथ अनुसंधान, यदि कोई हो प्राप्त	11.00 बजे से अपराहन 5.30 बजे
ı		करने की अवधि (*)	तक
ı	2	बोली जमा	24 मार्च, 2025 को अपराह्न 2.00 बजे तक
ı	3	बोली खुलने, बातचीत करने तथा	25 मार्च, 2025 को
ı		उच्चतम बोली की घोषणा	अपराह्न 3.00 बजे से
ı	4	कोष अंतरण एवं सौंपने के अनुबंध	28 मार्च, 2025 को
۱		का निष्पादन	अथवा पहले

- ईओआई और एनडीए प्राप्त होने पर, विस्तृत बिक्री प्रक्रिया नोट, बिक्री के लिए प्रस्तुत एन खातों से संबंधित जानकारी, बिक्री की शर्तें एवं आरक्षित मूल्य पात्र बोलीदाताओं के साथ साझा
- आरबीएल के पास अपने एकल विवेक के अनुसार बिना कोई कारण बताए इन संपत्तियों को पूरी तरह या आंशिक रूप से, एक या कई पूलों में बिक्री करने, लेनदेन के किसी भी चरण में इसमें अतिरिक्त संपत्ति शामिल करने तथा/अथवा किसी विशेष सम्पत्तियों अथवा सभी सम्पत्तियों को वापस लेने अथवा समय-सूची में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित है।
- बिक्री की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अंतिम बोली जमा करने के समय ऊपर उल्लेखित संपत्तियों की बिक्री की अंतिम तिथि पृथक रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।
- लेन-देन के संबंध में प्रत्येक बोलीदाता द्वारा वहन की जाने वाली सभी लागतें, व्यय, कर, स्टैम्प शुल्क और देयताएँ, जिसमें (बिना किसी सीमा के) यथोचित परिश्रम, बोली की तैयारी तथा/ अथवा जमा के संबंध में, अपने सलाहकारों की फीस सहित, यदि कोई हो, का भुगतान ऐसे बोलीदाता को करना होगा, चाहे किसी भी कारणवश उनकी बोली स्वीकार की गईं हो अथवा अस्वीकार की गई हो तथा आरबीएल इस संबंध में किसी भी प्रकार की देयताओं के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- इस प्रक्रिया के तहत कोई भी बिक्री आरबीएल बैंक के बोली मापदंडों, मूल्यांकन मानदंडों तथ आरबीएल के सक्षम प्राधिकारी के अंतिम अनुमोदन पर आधारित होगी।
- आरबीएल बैंक द्वारा आरबीआई के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार इन सम्पत्तियों की बिक्री की
- इच्छुक बोलीदाता (ओं) को निर्धारित तिथि से पहले नीचे दिए गए पते पर जल्द से जल्द इच्छा की अभिव्यक्ति जमा करने होंगे। आगे के स्पष्टीकरण के मामले में, आप नीचे उल्लेखित अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं:
- 🕨 श्री वरदाराजन तिरुमलाई 9930865671 श्री जय मुछाला 9987016308 / श्री नीरज
- श्री नीरव चोकसी-9892308555 बोलियाँ नीचे दिए गए पते पर मुहरबंद लिफाफे में जमा की जानी चाहिए;
- पता आरबीएल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रीय संचालन केंद्र, नौवीं मंजिल, टेक्नीप्लेक्स-I, ऑफ वी
- सावरकर फ्लाईओवर, गोरेगांव (पश्चिम), मुंबई 400062 आरबीएल बैंक के पास अपने विवेक पर, बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में प्रस्तावित बिक्री प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में आरबीएल बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

बजाज हाउसिंग फाइबैंस लिमिटेड FINSERV कार्पोरेट कार्यालय : सेरेब्रम आईटी पार्क बी-2 बिल्डिंग, 5वां तल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र - 411 014

शाखा कार्यालयः 14वां तल, अग्रवाल मेट्रो हाइट्स, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली—110034, **प्राधिकृत अधिकारी का विवरण** नाम : अजय मित्तल, **ईमेल आईडी** : ajay.mittal@bajajhousing.co.in, मोबा. नं. 9855733149 एवं 9896531846

नाम : अजय मित्तल, **इंमेल आईडी** : ajay.mittal@bajajhousing.co.in, मोबा नं. 9855733149 एवं 9896531846
वित्तीय आस्तियों का प्रतिमूतिकरण एवं पुनर्निर्मण तथ्या प्रतिमूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (अधिनियम)
के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के संबंध में ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना
एतदद्वारा सर्वसाचारण को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित कर्जवार/भार-कर्जवर ने यहां निम्न विवरणित उचल संपत्ति बजाज हाउसिंग फाइनेंस
लिमिटेड (बीएचएफरल) के पास बंधक रखी है तथा उक्त अचल सम्पत्ति (प्रतिमूत आस्ति तम् मित्र का किक्य स्थान विवरणिता उचल संपत्ति वजाज होत्य मित्र किया गया है। प्रतिमृत आस्ति का विक्रय, निम्न विवरणितानुसार बीएबएफएल को देय-मुत्तेय ऋण
कक्षया की राशियों, लागू ब्याज, शुल्कों एवं लागतों इत्यादि की वसूली के लिए बोलीदान करके सार्वजनिक नीलामी के मध्यम से किया जायेगा। प्रतिमृत
आस्ति का विक्रय 29-03-2025 को किया जा रहा है तथा बोलीदान का आयोजन, प्रतिमृति हित (प्रतिन) नियमावली (यहां इस्से इसके उपरांत नियमावली
के रूप में संदर्भित) के नियम संख्या ड व ९ के अंतर्गत एवं यहां नीचे विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों पर, "जैसी है जा है", "जैसी है जो है", "वहां जो
कुछ में संदर्भित) के नियम संख्या पहीं" आधार पर किया जायेगा।

सुरक्षित मूल्य सम्पत्ति की ईएमडी बोली वृद्धि ऋण खाता विक्रण/कर्जदार/रों एवं गारंटर/रों 1. ई—नीलामी की तिथि एवं समय 2 ईएमडी जमा की आंतम तिथि 3 सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय 4 सम्पत्ति का वर्णन का नाम और पता एलएएन :- H401HHL0957341, H401HLT0969541) 1) ई-नीलामी की तिथि : 29-03-2025 पर्वा. 11.00 बजे से सुरक्षित मृत्य : रु. 14,00,000 /-1. इमरान खान (कर्जदार) मध्या. 12.00 बजे के बीच 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के पता : एफएफ- २ प्रथम तल डी-8/33 डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी, गाजियाबाद, 28-03-2025अप. 5.00 बजे (आईएसटी) तक **3) निरीक्षण की** उत्तर प्रदेश-201102

साथ 2) केवाईसी के साथ ईएमडी जमा की अंतिम तिथि : ईएमडी : रू. 1,40,000/-तिथि : 13-03-2025 से 27-03-2025 तक पूर्वा. 11.00 बजे से अप. हजार मात्र) सुरक्षित 2. रेशमा खान (सह–कर्जदार) **पता** : एफएफ−2, प्रथम तल, डी−8/33, डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी, गाजियाबाद, व.00.00 वर्ज (आईएसटी) के बीच **4) अचल सम्मतित का वर्णन** : पतेट मूल्य की 10 प्रतिशत। **वर्जन** : पतेट की की प्रतिशत। बीली वृद्धि : पतिहास मार्चेज का वर्णन : पतेट सहित मार्चेज का वर्णन : पतिहास मार्चेज : पतिहास के अधिकार नहीं, परिमाप 500 वर्ग फीट, डी-ब्लॉक, डीएलएफ अंकुर उत्तर प्रदेश-201102 एवं इसके गुणजों में। कुल बकाया राशि : रू. 33,99,948/-विहार, लोनी परगना तथा तहसील एवं जिला गाजियाबाद-201102 . 'रूपए तेतीस लाख निन्धानवे हजार नौ परब : फॉट नंबर डी-8/34 पश्चिम : फॉट नंबर डी-8/32 . सौ अड़तालीस मात्र) 22-01-2025 की प्रभावी तिथि से भावी ब्याज और उदभुत प्रभारों सहित

सार्वजनिक नीलामी के नियम एवं शर्ते निम्नानुसार हैं : • सार्वजनिक नीलामी का आयोजन ''जैसी है जहां है, जैसी है जो है और कोई उपाय नहीं'' के आधार किया जा रहा है तथा संपत्ति का विक्रय बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को ज्ञात अथवा अज्ञात विद्यमान एवं भावी समस्त ऋणभारों के साथ किया जा रहा है प्रतिभूत आस्ति का विक्रय सुरक्षित मूल्य से कम पर नहीं किया जायेगा। • नीलामी बिक्री ई—नीलामी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। • ई—नीलामी पोर्टल https://bankauctions.in के माध्यम से 29-03-2025 को पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे तक और आगे 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ न्न होगी। • विस्तृत नियम एवं शतौँ के लिए कृपया कम्पनी की वेबसाइट यूआरएल https://www.bajajhousingfinance.in/auction-notices देखें अ किसी स्पष्टीकरण के लिए कपया प्राधिकत अधिकारी से सम्पर्क करें।

दिनांक : 12-03-2025) स्थान : दिल्ली/एनसीआर प्राधिकृत अधिकारी (अजय मित्तल) बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

LIC HFL

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

माँग मन्त्रम अधि

बैक कार्यालय : लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 110002 परिशिष्ट IV [(नियम 8(1)] अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

. जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में क्तिय परिसंपत्तियों के प्रतिभतिकरण एव पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम 2002 (२००२ का अधि. ३) के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के . नियम 9 के साथ पठित घारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, नीचे संक्षिप्तिकृत अनुसार ऋणकर्ता को मांग सचना निर्गत की थी, जिसमें उसे नीचे संक्षिप्तिकृत अनुसार सुचना में अंकित राशि+ इस राशि पर प्रोदमृतकृत ब्याज एवं अन्य शुल्कों का उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभगतान करने को कहा गया था।

चंकि ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राणि किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का. उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्ति के प्रयोगांतर्गत. यहां इसमें प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित तिथियों फ **साँकेतिक अधिग्रहण** कर लिया है।

ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन—देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, यहां नीचे संक्षिप्तिकृत अनुसार एक राशि+ इस राशि पर प्रोदभूतकृत ब्याज एवं अन्य श्रुत्कों हेतु एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

क्र. सं.	साह—आवेदक(काँ) के नाम	का विवरण	की तिथि	आध्रप्रहण सूचना की तिथि	के अनुसार राशि	का प्रकार
1.	आवेदक(गण):	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा	24.10.2024	07.03.2025	₹.	साँकेतिक
	श्रीमती अमृता सिन्हा	जिसमें संपत्ति संख्या	13,81,108.47 ₹	ाथ में राशि पर व	याज और अन्य शुल्क।	अधिग्रहण
ı	सह-आवेदक(गण):	आरजेडी–ई–41 की पूरी दूसरी				
ı	श्री सनय कुमार सिन्हा	मंजिल शामिल है, बिना छत के	अधिकार के वि	जेसका माप 54	वर्ग गज यानी 45 14	94 वर्ग मीटर है।
	ऋण खाता : 311000004639 खसरा संख्या 54/14 का हिस्सा बनाते हुए, दिल्ली राज्य, नई दिल्ली — 110077 के गांव पालम					
	क्षेत्र में राज नगर-।। पालम कॉलोनी के		ो में स्थित है।	घिरा हुआ:— उत्त	ार में: दूसरे का प्लॉट;	; दक्षिण में : दूसरे

की संपत्ति; **पूर्व में**: दूसरे की संपत्ति; **पश्चिम में**: 10 फीट चौड़ी गली।

2.		संपत्ति का वह पूरा हिस्सा 28.07.2022 07.03.2025 रू. साँकेतिक
	श्री अरुज अहमद	जिसमें संपत्ति संख्या एन-180, 53,33,683.48 साथ में राशि पर ब्याज और अन्य शुल्क। अधिग्रहण
	सह–आवदक(गर्ण):	दूसरी मंजिल, बिना छत के
	श्रीमती सबनम बेगम	
		अधिकार, सामने का हिस्सा, 90 वर्ग गज क्षेत्रफल, खसरा संख्या 21/24/1 से बाहर, गांव ख्याला,
		विष्णु गार्डन, नई दिल्ली — 110018 में स्थित है। सीमाः— उत्तर में: प्लॉट संख्या 179; दक्षिण में: संपत्ति
	का हिस्सा; पूर्व में: सडक 20 फीट; पश्चिम	में सडक के बाद अन्य इकाई 10 फीट।

3.	आवेदक(गण):—	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा 28.07.2022 07.03.2025 रु. साँकेतिक
	श्री बिनोद कुमार रमन	जिसमें संपत्ति संख्या 38,48,395.55 साथ में राशि पर ब्याज और अन्य शुल्क। अधिग्रहण
	सह—आवेदक(गण):	आरजेडी–एफ–51 / ए, तीसरी
	श्रीमती भवानी	मंजिल, छत के अधिकार के साथ, 70 वर्ग गज क्षेत्रफल शामिल है, खसरा संख्या 83/25 का
	ऋण खाताः 311000009693	हिस्सा, जो गांव पालम, महावीर एन्क्लेव, नई दिल्ली — 110045 के क्षेत्र में स्थित है। सीमाः— उत्तर
	में: अन्य संपत्ति; दक्षिण में : अन्य संपत्ति;	- पूर्व में: गली; पश्चिम में: गली।

4.	आवेदक(गण):- श्रीमती दीप्ति उपाध्याय सह-आवेदक(गण):- श्री रवि के कश्यप ऋण खाताः 311000027	संपत्ति का वह समस्त व 15.11.2024 07.03.2025 र साँकेतिक अधिग्रहण प्रक्रीहोल्ड एलआईजी पलैट प्रक्रीहोल्ड एलआईजी पलैट संख्या 969, द्वितीय तल, पॉकेट—डी, लोक नायक 17 पुरम (बक्करवाला) नई दिल्ली — 110041 में स्थित है, उक्त संपत्ति के अंतर्गत भूमि के फ्रीहोल्ड अधिकारों सहित।	1
5.	ऋण खाताः 311000004588	संपत्ति का वह हिस्सा 04.01.2023 07.03.2025 रू. साँकंतिक अधिग्रहण ए. निर्मित एल.आई.जी.	

	पराट गयर 66, प्रथम रास, पाय	400-15, 11(c) 3(1, g)(4), 4)(i-1, 12 (4(c)) 1 (4)(c)	'
6.	ऋण खाताः ३११०००००५४६५	संपत्ति का वह हिस्सा 05.01.2023 07.03.2025 रू. जिसमें फ्रीहोल्ड डी.डी. ए. निर्मित एल.आई.जी.	साँकेतिक अधिग्रहण
	फ्लैट नंबर 68, प्रथम तल, पॉकेट	ट–13, मंगला पुरी, द्वारका, फेज–1, नई दिल्ली में स्थित है।	

	ए. ानामत एल.आइ.जा					
	पलैट नंबर 68, प्रथम तल, पॉकेट-13, मंगला पुरी, द्वारका, फेज-1, नई दिल्ली में स्थित है।					
7.	आवेदक(गण): श्री दिवा नाध्य ऋण खाताः 311000006484	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा 04.01.2023 07.03.2025 ए. जिसमें फ्रीहोल्ड डी.डी.ए. गिर्मित एल.आई.जी. पलैट	साँकेतिक अधिग्रहण			
	संख्या ६८, प्रथम तल, पॉकेट-13, मंगला पुरी, द्वारका, फेज-1, नई दिल्ली में स्थित है।					
8.	आवेदक(गण):—	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा 15.11.2024 07.03.2025 रू.	साँकेतिक			

	संख्या ६८, प्रथम तल, पॉकंट—13, मंगला पुरी, द्वारका, फेज—1, नई दिल्ली में स्थित है।			
8.	आवेदक(गण):—	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा 15.11.2024 07.03.2025 🔻 साँकेतिक		
	श्री कमल प्रूथी	जिसमें भृतल, बिना 65,75,119.02 साथ में राशि पर व्याज और अन्य शुक्क।		
ı	सह—आवेदक(गण):—	छत / छत के अधिकार, तीन		
ı	श्रीमती मोनिका प्रूथी	कमरों का सेट, निर्मित संपत्ति संख्या एल-32 के हिस्से में, 70 वर्ग गज का क्षेत्रफल श		
ı	है (23' ग 27 – 1/2'), खसरा नंबर 57 का हिस्सा, गांव नांगली जालिब के क्षेत्र, कॉलोर्न			
1	जिसे न्यू महावीर नगर के नाम से जाना जाता है, ब्लॉक-एल, नई दिल्ली - 110018 में स्थित है। सीमा:- उत्तर में : उक्त संपत्ति			
1	का शेष भाग; दक्षिण में : गली 15 फीट; पूर्व में : संपत्ति संख्या एल-33; पश्चिम में : उक्त संपत्ति का शेष भाग।			

		X XX XX		
9.	आवेदक:—	लोकनायक पुरम 29.12.2023 07.03.2025 🔻 साँकेतिक		
l	श्री राजीव	(बक्करवाला), नई दिल्ली— 24,98,158.25 साथ में राशि पर ब्याज और अन्य शुल्क। अधिग्रहण		
l	सह–आवेदक: 110041 में स्थित फ्रीहोल्ड			
l	श्रीमती सोनिया	सोनिया डीडीए निर्मित फ्लैट नंबर 193, पॉकेट-बी-1, तीसरी मंजिल, एलआईजी श्रेणी से युक्त संपत्ति		
	ऋण खाताः ३११००००५५६ का वह हिस्सा और पार्सल।			
10.	आवेदकः—	निर्मित संपत्ति के पीछे की 25.11.2024 07.03.2025 🔻 साँकेतिक		

l		श्रीमती सोनिया ऋण खाताः 311000005596	डीडीए निर्मित फ्लैट नंबर 193, पॉकेट-बी-1, तीसरी मंजिल, एलआईजी श्रेणी से युक्त संपत्ति का वह हिस्सा और पार्सल।	
10.		आवेदक:— श्रीमती रूपाली सह—आवेदक:—	निर्मित संपत्ति के पीछे की 25.11.2024 07.03.2025 रू. सॉकंतिक ओर छत / छत के अधिकारों 21.40.533.21 साथ में राशि पर ब्याज और अन्य शुल्क। अधिग्रहण के बिना दूसरी मंजिल से	
		श्री हरीश कौशिक ऋण खाताः 311000009268	युक्त संपत्ति का वह हिस्सा और पार्सल, जिसका प्लॉट नंबर 142, अधिमापन 50 वर्ग गज या 41.81 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला खसरा संख्या 7/22 में से, मटियाला गांव, दिल्ली राज	

आबादी क्षेत्र में स्थित है, जिसे कॉलोनी ओम विहार एक्सटेंशन, ब्लॉक–ई, उत्तम नगर, नई दिल्ली – 110059 के नाम से जाना जात है। **सीमाः- उत्तर में:** 10 फीट चौड़ी गली; **दक्षिण में:** भवन का हिस्सा; **पूर्व में:** अन्य का प्लॉट; **पश्चिम में:** अन्य की संपत्ति।

11.	आवेदक(गण):—	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा 06.07.2024 07.03.2025 🔑 साँकेतिक
	श्री समरजीत राठौड़	जिसमें पूरी तीसरी मंजिल, 33,07,991.45 साथ में राशि पर ब्याज और अन्य शुल्क। अधिग्रहण
	सह—आवेदक (गण):	बिना छत के अधिकार के,
	श्रीमती रिंकू देवी	80 वर्ग गज यानी 66.888 वर्ग मीटर का क्षेत्र शामिल है, संपत्ति संख्या आरजेड-सी-3/207
		में से, खसरा संख्या 15/9 में से, गांव मिर्जापुर, दिल्ली राज्य, कॉलोनी महावीर एन्क्लेव, नई
	दिल्ली – 110045 के क्षेत्र में स्थित है	है। सीमा:– उत्तर में : अन्य की संपत्ति; दक्षिण में : अन्य की संपत्ति; पूर्व में : 20' चौड़ी सड़क;
	पश्चिम में अन्य की संपत्ति।	

12.	आवेदक(गण):	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा 15.11.2024 07.03.2025 रू. साँकेतिक
	श्रीमती सुनीता	जिसमें द्वितीय तल, बिना 27,12,421.94 साथ में राशि पर ब्याज और अन्य शुल्क। अधिग्रहण
	सह—आवेदक(गण):—	छत/छत के अधिकार,
		निर्मित संपत्ति संख्या डब्ल्यूजेड–127, क्षेत्रफल 57 वर्ग गज लगभग, खसरा संख्या 28 का हिस्सा,
	ऋण खाताः 311000004067	नंगली जालिब क्षेत्र में स्थित, कृष्णा पार्क, गली संख्या ८, पी.ओ. तिलक नगर, नई
	दिल्ली — 110018 के नाम से जानी जान	वे वाली कॉलोनी में स्थित। सीमा:- उत्तर में: प्लॉट संख्या 115; दक्षिण में: उक्त संपत्ति का हिस्सा;

पूर्व में: सड़क 15 फीट; पश्चिम में: गली। राशि बकाया राशि उपरोक्तानुसार प्लस माँग सूचना की तिथि से प्रोद्भूतकृत भावी ब्याज और

दिनाँक : 11-03-2025 स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

	(अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना				
अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)	
1.	कर्ज खाता क्र. HHLNOD00520618 1. गुल शरद अहमद 2. नफीसा	निर्मित दूसरी मंजिल, संपत्ति नंबर जी- 113/5 का भाग, छत के अधिकारों के बिना, जगत पुरी, गांव खुरेजी खास, इलाका शाहदरा, खसरा नंबर 1646/628 और नया नंबर 16/29- 30, दिल्ली-110051।	03.02.2025	रु. 37,70,144.86/- (रूपए सँतीस लाख सत्तर हुजार एक सौ चौवालीस और छियासी पैसे मात्र) 18.02.2025 के अनुसार	
2.	कर्ज खाता क्र. HHLKHU00086548 1. राजीव कथूरिया 2. रेणु कथूरिया	स्वतंत्र मंजिल नंबर आईएफ - 21/1, पहली मंजिल, लगभग 281.49 वर्ग मीटर (3030 वर्ग फीट) का सुपर एरिया, अपार्टमेंट का क्षेत्रफल लगभग 256.16 वर्ग मीटर (2757 वर्ग फीट), एक्सप्रेस ग्रीन्स में स्थित है, सेक्टर - एम1ए, मानेसर, डीएलएफ न्यू गुड़गांव, हरियाणा, कार पार्किंग स्पेस नंबर पी21/1ए और पी21/1बी के साथ।	03.02.2025	रु. 48,56,106.47/- (रुपए अड़तालीस लाख छप्पन हजार एक सौ छह और सैंतालीस पैसे मात्र) 19.02.2025 के अनुसार	
De at	कि कपुर लिखे नाम वाला उर्धाए लेने वाला(ले) ने कपा खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी राज अपनी आम				

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट. 2002

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी दारा अपनी बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है। उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्द्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयाविध के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता' सरफेसी अधिनियमन की धारा 13 की उप–धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

कृते सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी

नोट : हमारा स्वमान फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से कोई संबंध नहीं है।



स्थान : दिल्ली/गुड़गांव

वरूण बेवरेजेज़ लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एफ 2/7, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फंज-1, नई दिल्ली-110020; दूरमाष +91 11 41706720 कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. 31, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर — 44, गुरुग्राम — 122002 (हरियाणा) दूरमाषः +91 124 4643100 ईमेलः complianceofficer@rjcorp.in वेबसाइटः www.varunbeverages.com कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L74899DL1995PLC069839

30वीं वार्षिक आम बैठक की सदस्यों को सूचना

यह 6 मार्च, 2025 के हमारे पहले संचार के क्रम में है, जिसमें वरुण बेवरेजेज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को सूचित किया गया था कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी (एलओडीआर) विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सिंतबर, 2024 सहित पिछले सामान्य परिपत्रों के साथ पठित (एमसीए परिपत्र) निदेशक मंडल ने कंपनी की 30वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") गुरुवार, 03 अप्रैल, 2025 को पूर्वीह 11:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (''ओएवीएम'') सुविधा के माध्यम से 30वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को क्रियान्वयन करने के लिए सदस्यों की एक सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित करने का निर्णय लिया।

31 दिसंबर, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की 30वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट मंगलवार, 11 मार्च, 2025 को, एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 3 अक्टबर, 2024 और पिछले सेबी परिपत्रों के अनुसार, ई-मेल के माध्यम से उन सदस्यों को भेज दी गई है, जिनका ई-मेल पता कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") या उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (''डीपी'') के पास पंजीकृत था। ये सब कंपनी की वेबसाइट (www.varunbeverages.com), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध हैं।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, सेबी (एलओडीआर) विनियम की विनियम 44, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक—2 तथा एमसीए परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, 30वीं एजीएम सुचना में दिए गए संकल्पों पर इलेक्ट्रोनिक माध्यम से मतदान करने के लिए एनएसडीएल द्वारा सभी सदस्यों को रिमोर्ट ई-वोटिंग (एजीएम से पूर्व) तथा ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) की सुविधा प्रदान की गई है।

रिमोट ई—वोटिंग रविवार, 31 मार्च, 2025 (पूर्वाह 9:00 भारतीय मानक समय) को प्रारम्भ होगी तथा बुधवार, 2 अप्रैल, 2025 (सायं 5:00 भारतीय मानक समय) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान सदस्य अपना मतदान इलेक्ट्रानिक माध्यम से कर सकते है। तदोपरान्त रिमोट ई–वोटिंग मोड्यूल एनएसडीएल द्वारा मतदान करने के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान किया है, वे भी वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सविधा के माध्यम से दोबारा मतदान के अधिकारी नहीं होंगे। इसके अलावा, केवल वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना मत नहीं डाला है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, वे एजीएम के दौरान ई—वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

एक सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव पर मतदान करने के पश्चात, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम में शामिल होने, ई-मेल पते का पंजीकरण, लॉगिन विवरण प्राप्त करने और एजीएम के दौरान ई—वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश 30वीं एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराए गए हैं।

श्री कपिल देव तनेजा या उनकी अनुपस्थिति में श्री नीरज अरोड़ा, पार्टनर्स, संजय ग्रोवर एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, नई दिल्ली को ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से जांच करने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

सदस्यों को मतदान का अधिकार गुरुवार 27 मार्च, 2025 (''कट ऑफ तिथि'') को कंपनी के चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में अपने शेयरों के अनुपात में होंगे। एक व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या कट-ऑफ तिथि के अनुसार डिपॉजिटरीज द्वारा बनाए गए लामकारी स्वामियों के रजिस्टर में उल्लेखित है, वह ही केवल एजीएम में सम्मिलत होने के लिए अधिकृत होगा, रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं, इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से समझें।

कोई भी व्यक्ति, जो 30वीं एजीएम की सूचना के प्रेषण की तिथि के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है तथा कट—ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, वह 30वीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित निर्देशों का पालन करके या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई—वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के साथ पंजीकृत है, तो वह 30वीं एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपना वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

यदि आपने कम्पनी / डीपी / आरटीए के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, तो निम्न निर्देशों का पालन

कृपया केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, आरटीए को einward.ris@kfintech.com पर या कंपनी को भौतिक रूप complianceofficer@rjcorp.in पर ई-मेल पता दर्ज करने के लिए पैन और आधार कार्ड की स्वय से धारित सत्यापित प्रतिलिपि, अपना नाम, फोलियो नंबर और शेयर सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि (आगे और पीछे) करते हुए

डीमैट रूप कृपया अपने डीपी से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते से धारित में अपना ई—मेल पता पंजीकृत करें। करते हुए

सेबी ने भौतिक रूप में प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा पैन, केवाईसी विवरण (यानी पिन कोड के साथ डाक पता, ई–मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण) और नामांकन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। सदस्य से प्राप्त किसी भी सेवा अनुरोध या शिकायत पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उक्त विवरण / परिपत्र आरटीए को प्रदान नहीं किए जाते हैं। इस संबंध में प्रासंगिक विवरण और निर्धारित प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट www.varunbeverages.com पर उपलब्ध हैं।

31 दिसंबर, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की रिकॉर्ड तिथि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तय की जाएगी। अंतिम लाभांश का भुगतान सदस्यों को निर्धारित वैधानिक अविध के भीतर और कंपनी या उनके संबंधित डीपी के साथ पंजीकृत शासनादेश के अनुसार किया जाएगा। यदि हमारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक बैंक अधिदेश का पंजीकरण न होने के कारण किसी भी सदस्य को इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा या किसी अन्य माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ है, तो कंपनी ऐसे सदस्यों को निर्धारित वैधानिक अविध के भीतर उनके पंजीकृत पते पर बैंकर्स चेक / डिमांड ड्राफ्ट भेजेगी।

मतदान का परिणाम एजीएम के समापन से 2 कार्य दिवस या 3 दिवस जो भी पहले हों, के भीतर घोषित किया जाएगा और इस तरह घोषित किए गए परिणाम पर्यवेक्षक की समेकित रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट (www. varunbeverages.com), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) और एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर प्रदर्शित किए जाएंगे ।

ई—वोटिंग सुविधा के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देखें या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक से एनएसडीएल, चौथी मंजिल, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई—400 013 022—48867000 / 022—24997000 पर संपर्क करें या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजें या कंपनी के अनुपालन अधिकारी को complianceofficer@rjcorp.in पर ई—मेल लिखें।

दिनांकः ११ मार्च, २०२५

स्थानः गुरुग्राम

के लिए और की तरफ से वरुण बेवरेजेज़ लिमिटेड

हस्ता./-

रवि बत्रा मुख्य जोखिम अधिकारी एवं समूह कंपनी सचिव